

TENDER DOCUMENT NO.

**PART- I लिफाफा-1**

TENDER DOCUMENT NO.

**AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY,  
AYODHYA**

Civil line, parikrma marg. (Near D.M. Avas) Ayodhya

**PRE-QUALIFICATION BID**

**Name of work: - अयोध्या में धर्मपथ पर निर्मित म्यूरल की सुरक्षा के दृष्टिगत  
कास्ट ऑयन की रेलिंग का कार्य।**

**Date of Tender: - 16.06.2024 to 24.06.2024**

**Date of Opening Technical Bid: - 25.06.2024**

## TENDER DOCUMENT NO.

### कार्यालय, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

#### ई-निविदा सूचना

कार्यालय-अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा ठेकेदारों (ओपेन टू आल) से निम्नानुसार प्रतिस्पर्धात्मक ई-निविदा के माध्यम से आमन्त्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्नवत है।-

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगपन धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य (GST सहित)	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	कार्य की अवधि
1.	अयोध्या में घर्मपथ पर निर्मित म्यूरल की सुरक्षा के दृष्टिगत कास्ट-ऑफन की रेलिंग का कार्य।	2,13,71,212.00	4,27,500.00	5,900.00	24.06.2024	03 माह

#### नोट -

- विस्तृत जानकारी ई-निविदा पोर्टल [etender.up.nic.in](http://etender.up.nic.in) / प्राधिकरण की वेबसाइट [www.ayodhya.in](http://www.ayodhya.in) तथा कार्यालय कार्य दिवस में अभियन्तण अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।
- टेंडर डालने से पूर्व निविदा मूल्य (Tender Cost/ Bid Processing Fee) व धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) प्राधिकरण कोष, में दिये गये लिंक <https://emdada.ayodhyada.in/loginWithotp> के माध्यम से केवल ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

निविदाएं केवल ओवर ऑल प्रतिशत पर ही मान्य होंगी। शर्त निविदाएं मान्य न होंगी। निविदा के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण निविदा को बिना कारण बताएं निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण में निहित होगा। शासनादेश के अनुसार ठेकेदारों से निपमानुसार रायल्टी जी०एस०टी० एवं समस्त कटौतियां प्रचलित व्यवस्था के अनुसार की जायेंगी। समस्त निविदाओं के साथ शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग-14 के पत्र संख्या-87पू०ओ०/छःपु० 14-07-185/07 दिनांक 12 सितम्बर 2007 द्वारा जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रपत्र संख्या PWD-T-4 पर चरित्र प्रमाण पत्र, PWD-T-5 पर हैसियत प्रमाण-पत्र एवं PWD-T-6 पर (शपथ पत्र) रू०-100.00 (रू० एक सौ मात्र) के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित किया हुआ संलग्न किये जायेंगे। कार्य को निर्धारित समय अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा। अर्नेस्टमनी व टेंडर कास्ट प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग देय होगी। निविदा दरें निम्न होने पर 10 प्रतिशत निम्न तक 0.50 प्रतिशत प्रति प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न होने पर 01 प्रतिशत प्रति प्रतिशत की दर से परफारमेन्स गारण्टी/ सिक्योरिटी मनी अनुबन्ध के साथ जमा करना होगा। समस्त निविदाओं के सम्बन्ध में टेंडर डालने से पूर्व टेंडर कॉस्ट व अर्नेस्टमनी प्राधिकरण कोष में केवल दिये गये लिंक <https://emdada.ayodhyada.in/loginWithotp> के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के साथ ही भुगतान की प्रति टेंडर के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। इस शर्त का पालन न करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

टेक्निकल विड के साथ प्राधिकरण द्वारा मांगे गये प्रपत्रों का एक INDEX बनाकर, जिसमें प्रपत्र का विवरण एवं पृष्ठ संख्या स्पष्ट रूप से अंकित हो संलग्न करते हुए उसकी सॉफ्ट कापी निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

नोट - विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी प्राधिकरण कार्यालय कार्य दिवस में अभियन्तण अनुभाग से अथवा [Ayodhya.in](http://Ayodhya.in) / [etender.up.nic.in](http://etender.up.nic.in) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

- निविदा के साथ दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि, कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय, कार्य की श्रेणी व अन्य शर्तें एवं विवरण निविदा सूचना में अंकित शर्तों, विवरण एवं 'नोट' के अनुसार लागू होगी। निविदा सूचना निविदा प्रपत्र का एक अंश है।
- समान कार्यों की सूची साथ में संलग्न है। निविदादाता की निविदा उल्लिखित कार्य के अनुभव की मान्य होगी एवं संलग्न सूची के अनुसार समान कार्यों के अनुभव भी मान्य होंगे।
- ठेकेदारों के चालित देयको से 05 प्रतिशत जमानत धनराशि काटी जाएगी तथा 5 प्रतिशत कार्य सन्तोषजनक होने के बाद 12 माह बाद अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के बाद वापस किया जायेगा।
- किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा निविदा के अस्वीकृत होने के कारण को पूछा नहीं जा सकता है।

## TENDER DOCUMENT NO.

- 5 किसी भी निविदा पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ अग्रिम धनराशि जमा करने की रसीद अथवा निविदा सूचना के अनुसार अग्रिम धनराशि संलग्न न होगी।
- 6 निविदा की दर तथा जोड़ को शब्दों तथा अंकों में स्पष्ट रूप से भरा जाये तथा कोई भी कटिंग व ओवर राईटिंग न की जायेगी अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
- 7 यदि निविदा की स्वीकृति प्राप्त करने वाले ठेकेदार 15 दिन के अन्दर स्पष्ट रूप से कान्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो निविदा के साथ जमा किया हुआ धनराशि जब्त कर लिया जायेगा तथा निविदा की स्वीकृति वापस कर ली जायेगी।
- 8 ठेकेदार अपनी निविदा में दर उसी प्रकार से भरेगा जिस प्रकार से निविदा पत्र में मांगी गयी हों।
- 9 निविदा देने की तिथि से निविदा 03 माह तक वैध रहेगी।
- 10 जो पता ठेकेदार का निविदा में मिलेगा वही पता मान्य होगा और इस पते पर भेजी गई डाक यदि डाकखाने से किसी कारण से वितरित न होकर वापस हो जाती है तो समझा जायेगा कि ठेकेदार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।
- 11 प्रत्येक कार्य की निविदा के लिफाफे पर कार्य का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होगी।
- 12 साधारण एवं विशेष शर्तों/निर्णयों का पालन न होने पर निविदा मान्य न होगी और ठेकेदार को डिबार कर दिया जायेगा एवं ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।



पी०डब्ल्यू०सी०  
(अभि०अनुभाग)



अधि०अभि०  
अयोध्या विकास प्राधिकरण  
अयोध्या

ठेकेदार के हस्ताक्षर  
तथा पता:

TENDER DOCUMENT NO.


पार्ट-1 लिफाफा-1  
नियम एवं शर्तें


निविदा 2 बिड सिस्टम के आधार पर डाली जायेगी प्रथम लिफाफे में निम्न लिखित अभिलेख रखे जायेगे।

- 1 उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र।
- 2 प्रतिभूति जमा करने का प्रमाण पत्र।
- 3 टेण्डर मूल्य जमा करने का प्रमाण पत्र।
- 4 अनुभव प्रमाण।
- 5 आयकर रिटर्न विवरण।
- 6 टर्न ओवर प्रमाण पत्र।
- 7 टी0एण्ड पी0 का शपथ पत्र।
- 8 तकनीकी स्टाफ का शपथ।
- 9 फर्म का विवरण (प्रोपराइटर/पार्टनरशिप/प्रा0लि0/लि0)
- 10 चरित्र प्रमाण पत्र।
- 11 पार्टनरशिप डीड (आवश्यकता अनुसार)/ MOA of company
- 12 लिक्विड एसेट्स।
- 13 साल्वेन्सी।
- 14 ब्लैक लिस्टिंग न होने का शपथ पत्र।
- 15 पंजीकरण का स्थान।
- 16 लेबर रजिस्ट्रेशन, ESI, EPF रजिस्ट्रेशन प्रपत्र।

तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाता की ही निविदा की वित्तीय बिड खोली जायेगी।

अवर अभियन्ता  
अ0वि0प्रा0अयो0

  
सहायक अभियन्ता  
अ0वि0प्रा0अयो0

  
अधिशारी अभियन्ता  
अ0वि0प्रा0अयो0



## TENDER DOCUMENT NO.

### INFORMATION & INSTRUCTIONS FOR THE TENDERER

1. The application should be type-written. The applicant should sign each page of the application.
2. Over Writing should be avoided. Correction, if any, should be made by neatly crossing out, initialing, dating & re-writing.
3. The applicant may furnish any Additional information which he thinks is necessary to establish his capabilities to successfully complete the envisaged work. He is however advised not to furnish superfluous information. No information shall be entertained after submission of pre-qualification document unless it is called for by the Employer.
4. Any information furnished by the applicant found to be incorrect either immediately or at a later date, would render him liable to be debarred from tendering/taking up of work in Ayodhya Faizabad Development Authority. If search applicant happens to be enlisted contractor of any class in AFDA his name shall be removed from approved list of contractors.
5. The tenderer shall submit as two bid system in accordance with the procedures specified Documents shall be submitted in envelope of appropriate size, which shall be duly sealed.
6. Conditional tender shall not be considered.
7. Tender document is to be submitted in two envelope marked no-1 shall contain the technical bid and marked no-2 for price bid (Financial bid).
8. Both envelopes 1 & 2 will keep in one big envelop with name of work, date of tender detail of earnest money and full address and contact number of tenderers.

### LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

The Detail of document to be submitted with each envelope are given below:

- (i- Duly filled up pre-qualification document appended with the tenders.
- (ii- List of works satisfactorily completed during the last Five financial years of same nature or similar nature of work at least one work of 80% of Estimated cost or Two works of 50% of Estimated cost or three works of 40% more in Govt./Semi-Govt./Public Sector/ Private Sector undertaking.
- (iii/A- Attested copy of the partnership deed if it is partnership firm and registration certificate in case of company, sole proprietorship declaration in case of proprietorship firm. Joint ventures shall not be accepted.
- (iii/B- The tenderer shall clearly specify whether the tender is submitted on his own or on behalf of a partnership concern. If the tender is submitted on behalf of a partnership concern, he should submit the certified copy of partnership deed along with the tender and authorization to sign with the tender documents, the tender will be treated as having been submitted by individual signing the tender documents. The RDSO will not be bound by any power of attorney granted by the tenderer or by changes in the composition of the firm made subsequent to the execution of contract. It may, however, recognize such power of attorney and changes after obtaining proper legal advice, the cost of which will be chargeable to the contractor.
- (iii/C- The tenderer whether a sole proprietor, a limited company or partnership firm if they want to act through agent or individual partner (s) should submit along with the tender or at a later stage, a power of attorney duly stamped & authenticated by a Notary Public or by magistrate in favor of specific person whether he/they be partner (s) of the firm or any other person specifically authorizing him/them to submit the tender, sign the agreement, receive money, witness measurement, sign

TENDER DOCUMENT NO.

measurement books, compromise, settle, relinquish any claim (s) preferred by the firm and sign "No claim certificate" and refer any dispute to arbitration.

- (iii) Authority letter, if the firm/tenderer in favor of the person who has signed the tender document with telephone no. and complete postal address.
- (iv) Latest character certificate issued by competent authority.

  
Ex. Engineer  
A.D.A.

**TENDER DOCUMENT NO.**

**3.2 Envelope No-2 (Price Bid).**

- (a- Price bid duly filled in all respects in the original tender documents.
- (b- Non-Judicial stamp paper of Rs. 10/- (Rs. Ten Only) of UP along with Rs. 1/- revenue stamp.

System to open Tenders:

- (a- Envelope No-1 containing the earnest money deposit and pre-qualification document shall be opened first on specified date & time.
- (b- Envelope shall be containing the sealed price bid of only pre-qualified tenders shall be opened on the fixed date. The quoted rates of various tenders will be read out. Tenders desirous to be present shall be allowed at the time of opening of price bid.

  
**Ex. Engineer**  
**A.D.A.**



## TENDER DOCUMENT NO.

### REQUIREMENTS FOR PREQUALIFICATION OF TENDER

1. Tender Cost- निविदा सूचना के अनुसार ऑनलाइन जमा करानी होगी।
2. E.M.D.- निविदा सूचना के अनुसार ऑनलाइन जमा करानी होगी।

**3. Proof of solvency:**

- Minimum solvency required is 40% of total estimated cost put to tender (issue within a period of maximum six months). From Nationalized/ Scheduled Bank.

**AND**

- In case individuals, firms and Undivided Hindu Families, proof of solvency of the applicant will consist of aa fixed assets certificate (हैसियत प्रमाण पत्र) signed by the District Magistrate and Solvency certificate signed by Manager of the bank regarding the cash assets of the applicant.
  - In case of private limited company, the proof of the company solvency will be its last balance sheet audited and certified by the Chartered Accountant or certificate/ reference of a Nationalised/ Scheduled bank.
4. Average annual financial turnover on Construction works should be at least 30% of the estimated cost during the immediate LAST 3 consecutive financial years. For average turnover balance sheet is required. Income tax return is required to be submitted by the Contractor/ Bidder.
  5. Proof of previous experience:

- (1) Experience of having successfully completed works during the last 5 years ending last day of the month previous to the one in which applications are invited with Govt./ Semi Govt./ PSU only:  
Three similar completed works costing not less than the amount equal to 40% of estimated cost put to tender

Or

Two similar completed works costing not less than the amount equal to 50% of estimated cost put to tender

Or

One similar completed works of aggregate cost not less than the amount equal to 80% of estimated cost put to tender.

- (2) Experience of having successfully completed works during the last 5 years ending last day of the month previous to the one in which applications are invited:

For Similar of work: -		
S.No.	Nature of Work	Experience Required
1.	Bituminous Road work, Resurfacing work	Experience in Bituminous Road Work Only.
2.	Building Construction/ Multistorey Building Construction	Experience in building/ Multistorey building construction only.
3A.	Sewer and water supply/ OHT Construction	Experience in any such similar work (Registered Contractor of Jal Nigam will also be eligible for participation).
3B.	Sewer Cleaning.	Experience in such work only.
4.	Survey work- Topographical survey, level, contouring etc.	Experience in such survey work only.
5A.	C.C. Road work, RCC Drain, RCC Retaining Wall, RCC Divider, Culvert.	Experience in any such similar work.

## TENDER DOCUMENT NO.

5B	Brick Drain, Footpath, Interlocking Tiles, Boundary wall, Masonry work, Building Repair work.	Experience in any such work only.
5C	Miscellaneous Work- Railing Painting, Earth Filling, levelling, Garbage Disposal, Road and Drain Cleaning, Jungle Cleaning etc.	Experience of same type of work.
6	Maintenance Work: - (a) Maintenance of Horticulture Work (b) Maintenance of Apartments/ Buildings/ Colony	Experience of Horticulture work Only. Experience of Apartments/ Buildings only, such as Housekeeping, Supply of Labour etc.
7	Signages, logo, road signages along highway and arterial roads,	Experience in anyone along with structure.
8	Cast Iron Railing/ Cast Iron Grill work	Experience of same type of work.

- Bidder should be attach required same nature of work or above listed related similar nature of work mentioned in BOQ.
- Work should be clearly mentioned in the Experience Certificate having, Date of start, Date of actual completion, Details of majorly items with amount.

### नोट-

(अ) कम्बाइंड वर्क है तो मद वाइज कृत कार्य की धनराशि अंकित होना आवश्यक है।

(ब) सड़क में बिटुमिन सम्बन्धी, बी०एम० व एस०डी०सी० आदि कार्य में हॉटमिक्स प्लाण्ट अयोध्या विकास प्राधिकरण मुख्यालय से 50 कि०मी० की परिधि में स्थापित होना आवश्यक है।

(स) अनुभव 05 वर्षों में संतोषजनक रूप से पूर्ण किये गये कार्य का ही मान्य होगा। अनुभव के सम्बन्ध में कार्य पूर्णता की तिथि/ प्रमाण पत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष की गणना की जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की धनराशि प्रति वर्ष 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाकर गणना कर मानी जाएगी (उदाहरणार्थ, 01 वर्ष पुराने कार्य के लिए 5 प्रतिशत तथा 02 वर्ष पुराने कार्य के लिए 10 प्रतिशत आदि)।

### **Details/ Eligibility/ Requirements of Mandatory Annexures: -**

1. Proof of employment of technical staff will consist of a declaration by the contractor as given below. The declaration by the contractor will be given in the form attached Appendix 'B' (in the presence of Notary Public giving details of the required staff)

## TENDER DOCUMENT NO.

### GENERAL GUIDELINES FOR FIXING REQUIREMENT OF TECHNICAL STAFF FOR A WORK

Cost of Work (Rs. In Lac)	Requirement of Technical staff		Minimum experience (Years)	Designation
	Qualification	Number		
More than 1000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Project Manager with degree in corresponding discipline of Engineering.</li> <li>• Graduate Engineer</li> <li>• Graduate Engineer Or Diploma Engineer</li> </ul>	1	10	Principal Technical Representative
		1	5	Technical represents
		2	Nil	Technical
		2	5	Representative
500 to 1000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Graduate Engineer</li> <li>• Graduate Engineer Or Diploma Engineer</li> </ul>	1	5	Principal Technical Representative
		2	Nil	Technical represents
		2	5	Technical represents
200 to 500	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Graduate Engineer</li> <li>• Graduate Engineer Or Diploma Engineer</li> </ul>	1	5	Principal Technical Representative
		1	Nil	Technical represents
		1	5	Technical represents
50 to 200	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Graduate Engineer</li> </ul>	1	2	Principal Technical Representative
10 to 50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Graduate Engineer Or Diploma Engineer</li> </ul>	1	Nil	Principal Technical Representative
		1	5	Principal Technical Representative

**Note:** - 1. Rate of Recovery in case of non-compliance of above be stipulated at following rates-

S.No.	Qualification	Experience (years)	Rate of recovery
i)	Project Manager with Degree	10	Rs. 50,000/- p.m.
ii)	Graduate Engineer	5	Rs. 30,000/- p.m.
iii)	Graduate Engineer	Nil	Rs. 20,000/- p.m.
	Diploma Engineer	5	



## TENDER DOCUMENT NO.

2. Proof of possession of required machinery, tools, plant, centring & shuttering will consist of a declaration in shape of an affidavit duly verified by the Notary in the Proforma as per Appendix 'C'.

The minimum requirement of T&P possessed by the firm shall be follows: -

- |   |     |                  |  |     |
|---|-----|------------------|--|-----|
| (1) Road Roller/ Vibratory  | -02 |                  |  |     |
| (2) Trunk/ Tipper   | -02 |                  |  |     |
| (3) Water Tanker  | -02 |                  |  |     |
| (4) Water Pumps   | -02 | Vibratory Roller |  | -01 |
| (5) Hot mix plant & paver (Hiring of hot mix plant shall not be permitted in case the cost of DBM/BM/BC/SDC work is more than ten lacs) | -01 |                  |  |     |

The bituminous work B.M., D.B.M., B.C. and S.D.B.C., will have to be done by hot mix plant and paver only.

- |   |     |        |     |             |
|---|-----|--------|-----|-------------|
| (6) Excavator                                       | -01 |        |     |             |
| (7) Concrete Mixture with hopper                    | -01 |        |     |             |
| (8) Vibrator  | -02 | Needle | -01 | Surface -01 |
| (9) Concrete batch mix plant of capacity 15 Cum/Hr. |     |        |     | -01         |
| (10) Grader   | -01 |        |     |             |
3. Contractor will have to submit the character certificate issued by the District Magistrate in the name of partners in case it is the partnership firm, proprietor, in case it is proprietorship firm/ contractor, Directors in case it is Pvt. Ltd. Firm etc. without character certificate the tender shall be rejected.
4. The tenderer should submit the notarized affidavit that the tenderer/ firm has not been blacklist any state/ central government department/ organization. The e-tender of blacklisted contractor or not submitting the required affidavit shall be rejected.
- 5(A) Memorandum and Article of Association showing objectives of the Company/ firm and authority to sign the e-tender/ contract or delegate the power to other for signing the e-Bid/ contract
- 5(B) Place of registration
- 5(C) The Power-of-attorney authorizing the tenderer to sign the e-tender/ contract.
- 5(D) In case of firm, duly certified copy of partnership deed and registration certificate; in case of company, deed for article of association and power of attorney for the person concerned to authorize to sign the tender and agreement.
6. For the work where man power supply is included, valid registration/ license of labour dept, E.S.I. and E.P.F. are also required to be submitted.

The E-tender of the tenderer not submitted certified copies of above-mentioned documents shall be rejected.

7. The details regarding pre-qualification and tender containing rates are to be uploaded as per up to due date & time in the prescribed format. Non furnishing of required details/ incomplete details will lead to rejection of tender. In case it is found that the details furnished are fake/ false/ fabricated the firm shall be black listed without any notice.

## TENDER DOCUMENT NO.

8. The rates of only those contractors will be opened and recorded on comparative statement who pre-qualifies as per requirements mentioned here in after.
9. In case of any change in solvency, technical staff, tools and plants or change in partners of the constitution of a company after submission of documents, the same shall be intimated to the Engineer-in-charge
10. The decision regarding pre-qualifying the contractor for the above referred will rest with the Vice Chairman of Ayodhya Development Authority, whose decision will be final.
- 11A. It shall be the discretion of the Department to decide as to whether an E-tender fulfils the evaluation criterion mentioned in this e-tender or not.
- 11B. The tenderers are advised not to mix financial bid document with the PDF documents submitted for technical bid. The e-tender of the tenderers having financial bid document in the technical bid will out rightly be rejected.
- 12A. No tender shall contact the department on any mater relating the his/her r-tender, from the time of the e-tender opening to the time the contract is awarded. If the tenderer wishes to bring additional information to the notice of the department, he/ she can do so in writing.
- 12B. Any effort by a tenderer to influence the department in its decisions on e-tender evaluation, e-tender comparison or contract award may result in rejection the tenderer's e-tender.
- 12C. In the event of any information furnished by the agency is found false or fabricated the minimum punishment shall be debarred/ black listing from A.D.A. works and the legal proceeding can also be initiated.

CONTRACTOR SIGNATURE WITH SEAL

OFFICER INVITING TENDER



## TENDER DOCUMENT NO.

Proof of possession and use of required machinery, tools and plants will be given by the tenderers by way of declaration in shape of an affidavit on Rs. 10/- non-judicial stamp paper duly verified by the notary public in Prescribed Performa. It is advised to submit the certified copy of purchase document receipt etc.

### ***Site Office and Testing Lab***

The contractor shall establish site office & will arrange all possible testing equipment's, required for proper executions of work on his own cost.

## TENDER DOCUMENT NO.

Name of work: - अयोध्या में धर्मपथ पर निर्मित म्यूरल की सुरक्षा के दृष्टिगत कास्ट  
ऑयन की रेलिंग का कार्य।

### SPECIFICATION

- Method of tendering 1. The contractor must fill in ink schedule 'G' and the Supplementary schedule 'H' item by item in the several columns and must write in words well as in figures the rates per unit of measurement of each item. In column provided in the schedule 'G' and 'H' Each page of both schedules must also be signed by the contractor or duly accredited agent acting on his behalf it is strictly forbidden to modify or change the arithmetical totals of any or all the tenders' items by a percentage deduction or increase and tender is received will be liable to be rejected.
- Terms of Tender 2. Firm prices in rupees and paise shall be quoted for each item in the schedule 'G' and 'H' and tender shall remain good and open for acceptance for a period of four calendar month from the date of opening of tender.
- Water Supply 3. The contractor shall make his own arrangements in regard to water supply required for execution and test of the works as well as for drinking water for his own work people and he shall defray all charges in this connection and include in his rates a sufficient amount to allow for this. In case the contractors take water from Corporation taps, charges at them of 2% of the cost of the work done shall be deducted from his bill.

### Standard Detailed

- Specification 4. All works executed or materials supplied under this contract unless otherwise specific in this specification shall comply with the description set out in Public Works Department detail or the Indian standard specification or L. S. G. E. D. Detailed specifications in for as they are applicable shall be deemed to be incorporated in this contract. small and Scattered Works

## TENDER DOCUMENT NO.

5. The contractor may be required to carry out works in small quantities repairs or minor alterations to existing drains, pipe lines. Payments, locking existing mains and other miscellaneous purposes in connection with work. He shall be paid separately for work so carried out the rate tendered in schedule 'G' and 'H' for such items i.e. for boulder masonry brick work concrete excavation plaster & pointing etc, and no claim of any extra payments on ground of small work or due to its being of scattered nature shall be entertained.

### Extra Rate

6. Any new rates not given in the tender but given in the current P. W. D. schedule of rates shall be paid for according to rates on percentage (above or below) the current P.W.D. Schedule of rates calculated on the accepted tender over the estimated cost of the work or as decided by the Engineer- in- charge whichever is less.
7. Any new rates not given in P.W.D. schedule of rates shall be decided by the Engineer- in- charge and decision will be final.

### Brick Work

8. All brick works shall be paid according to brick size i.e. the thickness of walls shall half brick 4 ½" one brick 9" and 1 ½ brick 13 ½" and so on and of slab and lentals etc. 3", 4 ½", 6" and so on.

## TENDER DOCUMENT NO.

Name of Work: - अयोध्या में धर्मपथ पर निर्मित म्यूरल की सुरक्षा के दृष्टिगत कास्ट  
ऑयन की रेलिंग का कार्य।

### SCHEDULE 'A'

The site of work can be ascertained from the Assistant Engineer (Ayodhya Development Authority, Ayodhya). The tenders are advised to inspect the site of the work Before tendering the rates so that the man fully acquaint themselves with the nature of the work to be done, the means of communication and availability of materials and water required for the work.

The contractor must complete the work in accordance with the specification and to the entire satisfaction of the Engineer In charge with the specified period.

### SCHEDULE 'B'

The drawings regarding this, this work can be seen in the office of Engineer-In-Charge Ayodhya Faizabad Development Authority on any working day from 10 A.M. to 5 P.M.

### SCHEDULE 'C'

Nil

### SCHEDULE 'D'

The following samples be submitted by the contractor within 10 days of the receipt of orders to start the work and subsequent supplies shall not be inferior to the samples approved.

1-	Bricks		10 Nos. Surkhi	1Cft.
2-	Coarse Sand	1 Cft.	Brick ballast	1 Cft.
3-	Local Sand	1 Cft.	Any other sample	Desired by the Engineer
4-	Hard stone grit	1 Cft.		

Materials specified by the Engineer from time to time and brought on the site of work shall occasionally be tested by the Engineer at the cost of the Contractor. The material rejected shall be removed by the contractor within 24 hours, failing which the rejected materials shall be removed or disposed of by the Ayodhya Faizabad Development Authority at the cost of the contractor.

## TENDER DOCUMENT NO.

### SCHEDULE 'E'

- 1- All materials supplied by the contractor brought on the site shall be tested by the Engineer Incharge frequently to check up if they confirm the specification of P.W.D.
- 2- All the rates as may be necessary shall performed at the contractor's expenses and will have to make all necessary arrangement for conducting them and when called upon on to do so to the satisfaction of the Engineer.

### SCHEDULE 'F'

All works specified herein shall be completed in all respect to the entire satisfaction of the Engineer In charge and handed over to him or any persons nominated by to take over within a period of .....months from the date of receipt written order to commence the work.

The contractor's responsibility shall, however, not & until the maintenance period of one year or one rainy season with whichever is more from the date of completion is over is any defect is notified at the contractor's cost.

Individual portions of the work may be brought into use of the Ayodhya Faizabad Development Authority as each section is completed but maintenance period of one year or one rainy season whichever is more shall be finally counted from the date of entire work under the contract is finally completed and handed over.



## TENDER DOCUMENT NO.

# **AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY, AYODHYA**

## **SPECIAL CONDITIONS FOR WORK**

All the work shall be carried out as per detailed C.P.W.D., U.P.P.W.D., U.P. JAL NIGAM, U.P. POWER CORPORATION LTD., M.O.R.T.H. (Road Wing) specifications for road and bridge work (third revision 1995) as the case may be, latest circulars and instructions issued time to time as per instructions of Engineer-in-charge and other inspecting officers.

### **EXTENT OF CONTRACT**

The Contract comprises construction and completion of the specified job and the provisions of all labour, materials, T&P etc. and transport, temporary works etc. whether of temporary or permanent in nature required for the construction, completion and maintenance of the work.

### **INSPECTIONS OF THE SITE**

The tenderer (s) must inspect and examine the site of work and its surroundings and satisfy himself/themselves before submitting his/their tender. He/they has/have to make sure of the positions of quarries and availability of required material from quarries mentioned in the specifications, topography of the site availability of labour and material and other amenities before tendering. No claim for additional work or extra work due to any of the above will be allowed.

### **ENTRIES IN TENDER**

All entries by the tenderer should be in one ink and one hand/on prescribed bill of quantity only. Erasers and overwriting are not permissible. All corrections should be neatly written and signed by the tenderer. Rate should be written in figures as well as in words. In case there is any variation, lower rate shall be treated as Tender rate.

## **TENDER DOCUMENT NO.**

### **CONDITIONAL/ INCOMPLETE TENDER**

Conditional, incomplete, unsigned tenders will not be considered. Only those bidders who supply necessary proof/documents of possession of the required equipment's in their bids should be considered as responsive for further evaluation.

### **ADDRESS OF CONTRACTOR**

The contractor shall give his full permanent postal address. The postal receipt of the letters sent to him on this address shall be considered sufficient proof that they have been delivered to him.

### **ACCEPTANCE OF TENDER**

The department shall have the right to accept or reject any or all the tenders or part thereof, without assigning any reason to contractor and no claim whatsoever shall be entertained on this account.

### **SIGNING OF TENDER DOCUMENTS**

Contractor shall sign each page of tender documents before offering his tender and required stamp duty on the contract deed will be borne by the contractor.

### **COPY OF CONTRACT**

On request, the Executive Engineer may furnish the contractor with a copy of the contract.

### **TIME OF COMPLETION**

The time of completion as shown in this tender is for completion of the entire work.

### **EMPLOYMENT OF LABOR**

The contractor shall submit a daily report to the Engineer-in-charge regarding the total labour employed by him for the work and shall be bound to pay wages which shall not be less than the wages fixed under Minimum Wages Act.

## TENDER DOCUMENT NO.

### LINE AND LEVELS

The contractor shall be solely responsible for setting out the works and for the correctness of the position, levels, dimensions and alignment according to the specification and shall provide all necessary assistance, instruments, pegs, sticks, poles and other materials, required for the purpose. The tender rates shall be deemed to include all this.

### PROGRAMME AND RETURNS TO BE FURNISHED

As soon as practicable, but not later than 7 days after the acceptance of his tender, the contractor shall submit to the Engineer-In-Charge for his approval, a time schedule to carry out works. The contractor shall whenever be required by the Engineer-in-charge, furnish for his information arrangements for carrying out the work. The submission to and approval by Engineer-in-charge of such program or furnishing of such particulars shall not relieve the contractor of any of his duties or responsibilities under the contracts. In addition, the contractor shall have to furnish returns of work done by him, as may be directed by the Engineer-in-charge from time to time.

### EXECUTION

The contractor shall have to execute various item of works strictly according to the order and time schedule approved by the Engineer-In-Charge. Materials will also be tested as per required frequency of tests.

### TECHNICAL STAFF AT SITE OF WORK

The contractor shall have to employ full time technical staff and other supporting staff for supervision of the work. Name of the technical staff employed by the contractor shall be intimated in writing to the Engineer-in-charge. Any change of technical staff during the execution of work should be intimated immediately in writing to the Engineer-in-charge.

### SITE OFFICE

The contractor shall establish and maintain a site office under his authorized representative/technical staff. All relevant documents shall be kept in the site office.

### SITE ORDER BOOK

A site order book shall be maintained at the site of work in which instructions shall be given to the contractor as and when necessary. These instruction/orders, shall have to be signed and complied by the Contractor or his authorized representative. The entries in 'Site Order Book' shall be treated as proper notice serving upon the contractor in terms of his contract.



## TENDER DOCUMENT NO.

### LIGHTING ARRANGEMENT

The contractor shall make his own arrangement for lights during the fag end of the day in case the work is likely to be delayed due to unavoidable circumstances.

### TRAFFIC CONTROL

The contractor shall take all measures necessary for the safety of traffic during execution of work and shall provide, erect and maintain such barricades, reflective signs and caution boards, making flags, lights flagmen as necessary or as directed by the Engineer-in-charge for smooth and safe flow of traffic during execution of work. The contractor shall ensure to proper maintenance of patties in 2.5m. width during execution of the bituminous work and it shall be kept always damp by regularly watering to avoid nuisance. In case of any causality taking place at the work site, the contractor shall be solely responsible for payment of any compensation etc. to the aggrieved party.

### SUSPENSION OF WORK

The contractor on the written order of the Executive Engineer/Assistant Engineer shall suspend the progress of the works or any part thereof, for such time and in such manner as may be considered necessary and during such suspension shall properly protect and secure the work as far as necessary in the opinion of the Executive Engineer. Nothing extra shall be paid to the contractor if such a suspension is necessary for proper execution of the work by reason of weather or by some default or the contractor or necessary for safety of the work or any part thereof.

### SAMPLES

Contractor shall make laboratory with sufficient arrangement of testing facilities, appliances and laboratory technicians etc. at site and shall always co-operate in procurement of samples, conduction tests, as may be directed and no extra payment shall be made for them. Test samples shall be taken carefully in accordance with the I.S.I. method of sampling, no plea shall be entertained on this account. Job Mix Formula for B.M. and S.D.C. shall be done from any reputed authority by the contractor on his cost.

## TENDER DOCUMENT NO.

### TESTING MATERIALS

All materials and workmanship shall be of the respective kind described in the contract and in the accordance with Engineer-in-charge instructions and shall be subjected from time to time to the testes mentioned under specifications. The contractor shall provide such assistance, labour and materials as are normally required for examining measuring and testing of the works and quantity weight or quality of materials used and shall supply materials, sufficiently in advance for testing as mentioned under specifications. The materials used subsequently for execution of the work shall strictly conform to the quality and sample approved. Necessary test for which facilities are not available locally or at site shall be conducted in the nearest available government controlled

Laboratories/Research Institute, Lucknow or any other reputed technical institution. Cost of such testing and forwarding of sample to the laboratory etc. shall be borne by the contractor and nothing extra shall be paid on this account. Regular quality control test registers shall be maintained by the contractor.

### ROYALTIES AND TAXES ETC.

The contractor shall pay all royalties, license fee, other charge at quarry, octroi duties, custom duties, toll taxes, trade tax and any other local taxes as may be levied. No passes for octroi or toll levied by local bodies on toll bridges shall be issued by the Department. Rate shall inclusive of the same. Nothing extra shall be paid due to fluctuations in the cost of materials, machines, bitumen, P.O.L., labour and all types of taxes etc.

### COMPLIANCE WITH LOCAL BYE LAWS

The contractor shall throughout the continuance of the contract and in respect of all matters arising out of performance thereof, conform with all required regulating and bye-laws of the local or other authorities which may be applicable to the works.

### ROAD TRANSPORT

The contractor employing motor vehicles for transport of material shall abide by provisions of the Motor Vehicles Act.



## **TENDER DOCUMENT NO.**

### **DAMAGES BY RAINS, ACCIDENTS OR NATURAL CALAMITIES**

No payment will be made to the contractor for damage caused by rains, accidents or other natural calamities during the progress of work. No claim whatsoever shall be entertained on this account.

### **DEFAULT OF CONTACTOR IN COMPLIANCE**

Constant defiance of the instructions of Engineer-in-charge on the part of the contractor or his authorized agent will make the contract will liable to be terminated.

### **CLEARANCE OR SITE ON COMPLETION**

The contractor shall at all times keep the premises free from accumulated waste materials or rubbish caused by his employees on the works and on completion of the work, he shall clear away and remove from site all surplus materials, rubbish and temporary work of any kind and fill up borrow pits dug by him. He shall leave whole of the site and work clean and in a workmanlike condition to the entire satisfaction of the Engineer-in-charge.

TENDER DOCUMENT NO.

**PART- II लिफाफा-2**

TENDER DOCUMENT NO.

**AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY,  
AYODHYA**

Civil line, parikrma marg. (Near D.M. Avas) Ayodhya

**PRICE BID**

**Name of work: -** अयोध्या में धर्मपथ पर निर्मित म्यूरल की सुरक्षा के दृष्टिगत कास्ट ऑयन की रेलिंग का कार्य।

TENDER DOCUMENT NO.

SCHEDULE "G"

Name of Work- अयोध्या में धर्मपथ पर निर्मित म्यूरल की सुरक्षा के दृष्टिगत कास्ट  
ऑयन की रेलिंग का कार्य।

1. DATE OF CALLING TENDER - 16.06.2024
2. DATE OF OPENING TENDER - 25.06.2024
3. COST OF TENDER - 2,13,71,212.00
4. EARNEST MONEY - 4,27,500.00
5. VALIDITY OF TENDER - 03 months



A.E.

J.E.

I/We hereby execute the work on .....% above/below/  
at par (both on words and figures)

CONTRACTOR'S SIGN.

ADDRESS:

**AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY, AYODHYA**

WORK NAME- Supply and fixing of CI railing for safety of Murals at Dharam Path Ayodhya.					
BOQ FOR CAST IRON GRILL					
S.N.	DESCRIPTION	QUANTITIES	UNIT	RATE	AMOUNT
1.	Supply and fixing of Cast Iron painted Grill. Grill should be made of 20 mm Vertical solid bar. Height of the grill should be 1000mm including motive and spike and top and bottom members should be 20*40 mm solid square bar for supporting of vertical 1 member Each baluster (vertical member) should be fixed in 200mm equal spacing including spike  The bidder shall be fix the Sample of Grill for Approval on site.	108864.00	K.G.	194.25	2,1146,832.00
2.	Providing and laying cement concrete 1:2:4 (1 cement, 2core sand,4 graded stone ballast 20mm nominal size) including supply of all materials. Laboure and T&P etc. Required for proper completion of work curing complete also including cost of frame works. Cast cement, Concrete door, sills, chaukhats, boundary post, shelves, and similar small works with cement, approved course etc. RATE AS PER SOR-4/6(2)-282	26.00	Cum	8630	2,24,380.00
<b>Total</b>					<b>2,13,71,212.00</b>
<b>18% G.S. T</b>					<b>38,46,818.16</b>
<b>Grand Total</b>					<b>2,52,18,030.16</b>



14/6/24  
15  
  
14/6/24